

Weekly One Liners 02nd March to 08th March 2020

Most Important Current Affairs of February

कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को मिलाकर 4 करने की दी मंजूरी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र (public sector banks - PSBs) के 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंक बनाने के व्यापक विलय को मंजूरी दे दी है, उन्होंने ये भी कहा कि इस विलय पर काम जारी है और यह विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगा। केंद्र सरकार लगातार इन बैंकों से संपर्क बनाए हुए है। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय निर्धारित किया जा चुका है, और इस संबंध में बैंक के बोर्डों द्वारा पहले ही निर्णय ले लिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में बड़ा कदम उठाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की थी। जिससे इनकी संख्या 2017 में 27 बैंकों से घटकर 12 पर आ गई थी।

इस विलय के अंतर्गत निम्नलिखित PSB का विलय कर दिया जाएगा: -

1. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय
2. सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय
3. इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय
4. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय

सरकार ने यस बैंक पर लगाई रोक, खाताधारक अब निकाल सकेंगे केवल 50,000 रुपये

केंद्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर नकदी की समस्या से जूझ रहे यस बैंक की गतिविधि पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के लिए पैसे निकालने की सीमा 50,000 करने का ऐलान किया है। साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को भी तत्काल प्रभाव से भंग कर परिचालन अपने हाथों में ले लिया है।

एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक बनाया गया है।

किन शर्तों पर जमाकर्ताओं को दी जाएगी 50,000 से अधिक राशि निकालने की अनुमति

- जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति के चिकित्सा उपचार के लिए.
- जमाकर्ता या उस पर निर्भर व्यक्ति की उच्च शिक्षा के खर्चों के लिए जो भारत या विदेश में पढ़ रहा हो.
- जमाकर्ता या उस पर निर्भर उसके बच्चों या किसी अन्य व्यक्ति के विवाह या अन्य समारोहों के अनिवार्य खर्चों के भुगतान के लिए.
- किसी अन्य अपरिहार्य आपातकाल स्थिति में.

राष्ट्रपति कोविंद ने प्रदान किए 61 वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कलाकारों को 61 वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों कलाकारों को एक लाख रुपये नकद पुरस्कार, शॉल और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार हर साल कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन अकादमी द्वारा गठित निर्णायक मंडल के एक सम्मानित पैनल द्वारा किया जाता है। इन 15 विजेताओं को 283 कलाकृतियों में से चुना गया।

नीचे 61 वें वार्षिक राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार के विजेताओं की पूरी सूची दी गई है:

S. No.	विजेता	राज्य
1	अनूप कुमार मन्हुखी गोपी	तृशूर, केरल
2	डेविड मलाकार	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
3	देवेन्द्र कुमार खरे	वडोदरा, गुजरात
4	दिनेश पंड्या	मुंबई, महाराष्ट्र
5	फ़ारूक अहमद हलदर	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
6	हरि राम कुम्भावत	जयपुर, राजस्थान
7	केशरी नंदन प्रसाद	जयपुर, राजस्थान
8	मोहन कुमार टी	बेंगलुरु, कर्नाटक
9	रतन कृष्ण साहा	मुंबई, महाराष्ट्र
10	सागर वसंत कांबले	मुंबई, महाराष्ट्र
11	सतविंदर कौर	नई दिल्ली
12	सुनील तिरुवयूर	एनकुलम, केरल
13	तेजस्वी नारायण सोनवणे	सोलापुर, महाराष्ट्र
14	यशपाल सिंह	दिल्ली
15	यशवंत सिंह	दिल्ली

12 Months Subscription



BANK

Useful for Bank & Insurance Exams

TEST PACK

National Affairs

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी स्तर की क्रॉसिंग को ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज में बदलने का कार्य सेतु भारतम योजना के तहत निष्पादित किया जाएगा
- नई दिल्ली में राज्य और केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में कोविड-19 से रोकथाम और ज़रूरी प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा "उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा "हर काम देश के नाम" पहल के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- भारत व्यापार संवर्धन संगठन (India Trade Promotion Organisation) द्वारा नई दिल्ली में 3 से 7 मार्च तक चलने वाले आहार- भोजन और आतिथ्य मेला का 35 वां संस्करण आयोजित किया गया।
- गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard-NSG) के रीजनल हब परिसर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बहादुर एनएसजी जवानों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार ने नई दिल्ली में आवासीय सोसाइटियों, होटलों और अस्पतालों के दरवाजे तक डीजल पहुँचाने के लिए 'Fuel Humsafar' मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च की।
- पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा नई दिल्ली में "अतुल्य भारत" वेबसाइट और मोबाइल ऐप के तीन नई भाषा-चीनी, अरबी और स्पेनिश वाले संस्करण को लॉन्च किया गया है।
- राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम (National Handicapped Finance Development Corporation - NHFDC) द्वारा नई दिल्ली में हस्तशिल्प और दिव्यांग शिल्पकारों एवं उद्योगों के उत्पादों को बढ़ावा देने लिए "एकम मेला" का शुभारंभ किया गया।
- जम्मू में पेंशन अदालत और राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension System) के जागरूकता और शिकायत निवारण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions



RBI ASSISTANT MAINS

25 Total Tests | eBooks

- भारत ने यूरोप के आर्मीनिया को 4 स्वदेशी निर्मित राडार (हथियारों का पता लगाने में सक्षम) की आपूर्ति करने के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर का रक्षा सौदा किया।

International Affairs

- स्लोवेनियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जनेज़ जानसा को स्लोवेनिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है।
- यूरोप के सातवें सबसे छोटे देश लक्समबर्ग ने सड़क यातायात की समस्या और बढ़ते दबाव को घटाने के लिए देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान किया है।
- विश्व बैंक ने कोरोनावायरस प्रकोप के चलते आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की मदद के लिए 12 बिलियन अमरीकी डालर की राशि देने की घोषणा की है।
- प्रमुख भारतीय-अमेरिकी स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बनाई गई व्हाइट हाउस कोरोनावायरस टास्क फोर्स का एक प्रमुख सदस्य नियुक्त किया गया है।
- चीन मार्च 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुल 15 सदस्यों का संगठन है।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने नोबल कोरोनावायरस (COVID-19) से निपटने के लिए एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के विकासशील देशों की मदद के लिए कुल 4 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 29 करोड़) की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
- मलेशिया के पूर्व गृह मंत्री मोइद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। उन्हें इस पद पर 94 वर्षीय महातिर मोहम्मद के इस्तीफे के बाद चुना गया है।

States in the News

- मिजोरम में "चापचार कुट" पर्व मनाया जा रहा है। चापचार कुट मिजो समुदाय का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खुशी से मनाएं जाने वाला पर्व है।
- मध्य प्रदेश के निवारी जिले के ओरछा शहर में 'नमस्ते ओरछा' महोत्सव आरंभ हो गया है। ओरछा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के साथ-साथ अपने रामराजा मंदिर के लिए भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
- उत्तराखंड सरकार ने "गैरसैण" को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। गैरसैण चमोली जिले में स्थित तहसील है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये ऐतिहासिक घोषणा की।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च 2020 को गौतम बौद्ध नगर के नोएडा में लगभग 2,821 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए ई-विधान प्रक्रिया लागू की है, जिसमें अब सदन की प्रत्येक कार्यवाही बिना कागज के इस्तेमाल के की जाएगी।

- लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के कोटा में "सुपोषित माँ अभियान" का शुभारंभ किया। यह अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया है।
- मध्य प्रदेश में खरगौन जिले के कसरावद में अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया।
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अंतराष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन ऋषिकेश, उत्तराखंड में किया गया।
- भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित किया है।


Agreements/MoUs Signed

- ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़न ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य शहरों में रहने वाले लोगों के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) द्वारा निर्मित उत्पादों के ई-मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करना है।
- मंडी के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) और एनाब्लिंग वीमेन ऑफ कामंड (EWOK) सोसायटी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में तीन किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना करने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- निजी क्षेत्र के बैंक आरबीएल (जिसे पहले रत्नाकर बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) ने ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और खाना पहुँचाने वाली ऐप Zomato के साथ मास्टरकार्ड द्वारा संचालित को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है।
- नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हरिद्वार स्थित पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान के साथ देश के विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक स्थायी कृषि विकास से संबंधित सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों पर विशिष्ट कार्य योजनाएं विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

TEST SERIES

Bilingual

Video Solutions



SBI PO 2020

PRE + MAINS

135+ TOTAL TESTS | eBOOKS

- भारतीय वायु सेना और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय ने "Chair of Excellence" (उत्कृष्टता पीठ) की स्थापना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पीठ को "मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह चेरर ऑफ एक्सीलेंस" का नाम दिया गया है।
- त्रिपुरा सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) ने राज्य में धलाई जिले के मनु ब्लाक में उपकरणों को रखने के लिए 6 केंद्रों का निर्माण करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Banking/Economy/Business News

- बाजार नियामक संस्था सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सेबी शिकायत निपटान प्रणाली मोबाइल एप्लिकेशन 'Sebi SCORES' लॉन्च की है।
- भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम इन्सुरेंस ब्रोकिंग को बीमा नियामक और प्राधिकरण प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा ब्रोकरेज लाइसेंस जारी कर दिया है।

Appointments/Resignations

- भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन ने स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। 28 जून, 2016 को तीन साल के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में पदभार संभालने के बाद, विश्वनाथन ने तीन गवर्नरों रघुराम राजन, उर्जित पटेल और शक्तिकांत दास के अधीन काम किया है।
- मुंबई में BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है।
- विदेश मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए जाने घोषणा की गई है।
- केंद्र सरकार ने वर्तमान राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की नियुक्ति नए वित्त सचिव के रूप में करने की घोषणा है।
- वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव सुधांशु पांडे ने मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (MMTC) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है।
- Ppekka Lundmark (Pekka Lundmark) को नोकिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष बनाएं जाने की घोषणा की गई है।
- डॉ. विजय लक्ष्मी सक्सेना को भारतीय विज्ञान कांग्रेस, 2021 का अध्यक्ष चुना गया है।

Summit and Conference

- भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ (Indian Science Congress Association) ने घोषणा की है कि पुणे अगले साल 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108 वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- विश्व उत्पादकता कांग्रेस या World Productivity Congress का 19 वां संस्करण इस साल 6 मई से 8 मई तक कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा।

Ranks and Reports

- अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के BRAC ने गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की टॉप 500 वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वैश्विक गैर सरकारी संगठनों की वर्ष 2020 के शीर्ष 500 NGO की सूची जिनेवा स्थित संगठन NGO Adviser द्वारा जारी की गई।

Awards & Rewards

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को 'वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स' का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2019 का आयोजन राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग) के महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा।
- असम के पर्यावरण कार्यकर्ता और 'फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया' के नाम से लोकप्रिय जादव पायेंग को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा की जा रही है असाधारण स्वैच्छिक सेवा के लिए 128 वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया।

Sports News

- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने घोषणा की है कि खेलों इंडिया विमेंस हॉकी लीग अंडर -21 के पहले संस्करण का आयोजन हॉकी इंडिया के साथ मिलकर किया जाएगा।
- इस साल की बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप फिलीपीन की राजधानी मनीला में आयोजित की जाएगी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप को पहले चीन के वुहान में आयोजित किया जाना था।
- भारत की तन्वीम मीर और मानसी सिंह ने नीदरलैंड के हरलेम में आयोजित योनेक्स डच जूनियर इंटरनेशनल 2020 में लड़कियों की एकल बैडमिंटन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है।
- हरियाणा के पंचकुला जिले में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 का 68 वां संस्करण आरंभ हो गया है।
- दुनिया भर में फैले चुके नोबेल कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते अगले महीने होने वाले प्रतिष्ठित अज़लान शाह हॉकी टूर्नामेंट को अप्रैल के बजाय सितंबर में आयोजित करने का फैसला किया गया है।
- ओडिशा के भुवनेश्वर में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल संपन्न हो गए हैं। इन खेलों में चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय ने की जबकि सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय दूसरे और पटियाला का पंजाबी विश्वविद्यालय, तीसरे स्थान पर रहा।
- विश्व के दूसरे नंबर के स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने एटीपी मैक्सिको ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को हराकर इस साल का पहला खिताब जीत लिया है।
- महिलाओं में हीथर वाटसन (Heather Watson) ने तीन सालों में पहला डब्ल्यूटीए खिताब अपने नाम किया।

Books and Authors

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर शुरू की गयी 25 पहलों के एक संकलन के रूप में पुस्तक "Chronicles of Change Champions" का विमोचन किया गया।

Defence News

- भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने महिलाओं के लिए "स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रांगर सोसाइटी" के विषय पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण (Self Defence Training) कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को असम के नलवाड़ी जिले की स्थानीय महिलाओं के लिए आयोजित किया गया।
- भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार "प्रज्ञान सम्मेलन 2020" नई दिल्ली के मानेकशां सेंटर में आरंभ हो गया है। इस सेमिनार का आयोजन सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) द्वारा किया जा रहा है।
- महाराष्ट्र के पुणे में विस्फोटक डिटेक्शन पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। इसमें पुणे के हाई एनर्जी मैटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL) द्वारा "RaDer-X" नामक एक नए विस्फोटक का पता लगाने वाले उपकरण का भी अनावरण किया गया।

Important Days

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसदिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जाए इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है।
- देश में हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- जागरूकता की कमी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और इन्हें रोकने के लिए जरूरी सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापना दिवस भी है।
- विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को बहरेपन और सुनवाई की हानि को रोकने और दुनिया भर में कान और सुनने की क्षमता की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता फैलाने के प्रयासों पर विश्व हियरिंग दिवस या World Hearing Day मनाया जाता है।
- विश्व स्तर पर हर साल 3 मार्च को पृथ्वी पर मौजूद वन्य जीवों और वनस्पतियों की सुंदरता और विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है।
- शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन मानव अधिकारों की रक्षा करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और निष्पक्ष न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस वर्ष के शून्य भेदभाव दिवस की थीम: ZERO DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND GIRLS है।

Science and Technology

- (National Aeronautics and Space Administration) ने पांचवें मार्स (लाल ग्रह) रोवर का नाम Perseverance रखने का ऐलान किया है। इससे पहले रोवर को इसके कोडनेम मार्स 2020 के नाम से जाना जाता था।
- प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, चंद्रयान-3 के लॉन्च के लिए संभावित कार्यक्रम 2021 की पहली छमाही में लांच करने की योजना है।
- सर्च इंजन कंपनी गूगल क्लाउड ने दिल्ली में क्लाउड रीजन विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। यह गूगल का भारत में दूसरा क्लाउड रीजन होगा, इससे तीन साल पहले गूगल ने साल 2017 में मुंबई में इसे लॉन्च किया था।
- हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स (ARCI) ने पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल्स (PEMFC) नामक एक ईंधन सेल तकनीक की खोज की है।

Obituaries

- पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता हंस राज भारद्वाज का कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। हंस राज भारद्वाज की आयु 83 वर्ष थी।
- संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज़ डी क्यूएलर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1973 से 1974 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
- बांग्लादेश बौद्ध क्रिस्टी प्रचार संघ के प्रमुख संघनायक शुद्धानंद महात्रो का कल ढाका में निधन हो गया। वे बांग्लादेश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रमुख माने जाते थे।
- भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह खुल्लर का निधन। वह 1968 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।

Miscellaneous News

- विश्व के सबसे फेमस स्पोर्ट्स ब्रांड PUMA ने बॉलीवुड की स्टार अभिनेत्री करीना कपूर खान को अपना नया ब्रांड एंबेसडर।
- इस वर्ष होने वाले वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का चौथा संस्करण 16 से 20 मई तक केरल के कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का विषय "Ayurveda Medical Tourism: Actualizing India's credibility" (आयुर्वेद चिकित्सा पर्यटन: भारत की साख बनाना) है।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में "छात्र स्वास्थ्य कार्ड" योजना का शुभारंभ किया गया है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना शुरूआत की है।
- भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (Bureau of Energy Efficiency - BEE) ने अपने 19 वें स्थापना दिवस पर लाइट कमर्शियल एयर कंडीशनरों (LCAC) और डीप फ्रीज़र के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है।

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है।
- जम्मू और कश्मीर के पुराने जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर 'भारत माता चौक' कर दिया गया।
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला -2020 का उद्घाटन किया।
- इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड में "ACREX India 2020" प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- राजस्थान में जोधपुर के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू आरंभ हो गया है। पहले बैच में 30 न्यायिक अधिकारियों को "मुकदमा प्रबंधन और न्यायालय प्रबंधन" पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती-फिरत खान-पान सेवा "रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स" का शुभारंभ किया है।

Static Takeaways

- जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल और प्रशासक: गिरीश चंद्र मुर्मू.
- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री: धर्मेंद्र प्रधान.
- जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं।
- ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम हैं।
- भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) के अध्यक्ष: LC गोयल.
- भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) मुख्यालय: नई दिल्ली.
- भारत व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO) का गठन: 1 अप्रैल 1977.
- केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री: नितिन जयराम गडकरी.
- मलेशिया की राजधानी: कुआलालंपुर; मलेशिया की मुद्रा: मलेशियाई रिंगित.
- एडीबी के अध्यक्ष: मात्सुगु असकावा.
- एडीबी का मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस.
- यूएसए की राजधानी: वाशिंगटन, डी. सी.; मुद्रा: यूएस डॉलर.
- विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड रॉबर्ट मालपास; मुख्यालय: वाशिंगटन डीसी.
- लक्समबर्ग के प्रधान मंत्री: जेवियर बेटटेल; राजधानी: लक्समबर्ग शहर.
- स्लोवेनिया के राष्ट्रपति: बोरुत पाहोर; राजधानी: जुब्लजाना
- पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय: नई दिल्ली.
- पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: एसएस मल्लिकार्जुन राव.
- केनरा बैंक का मुख्यालय: बेंगलुरु.
- केनरा बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: लिंगम वेंकट प्रभाकर.
- इंडियन बैंक का मुख्यालय: चेन्नई.
- इंडियन बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: पद्मजा चुंदरु.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय: मुंबई.

- यूनिनिय बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: राजकिरण राय जी.
- मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन (MMTC) लिमिटेड का मुख्यालय: नई दिल्ली.
- केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारामन.
- तुर्की के राष्ट्रपति: रजब तैयब इरदुगान.
- तुर्की की राजधानी: अंकारा; तुर्की की मुद्रा: टर्की लीरा.
- बीसीसीआई अध्यक्ष: सौरव गांगुली; BCCI का मुख्यालय: मुंबई.
- नीति आयोग के सीईओ (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया): अमिताभ कांत.
- वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस (WCPS) मुख्यालय: मॉन्ट्रियल, कनाडा.
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस कांग्रेस के अध्यक्ष: के.एस. रंगप्पा.
- भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल.
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष: अरविंद सिंह.
- वायु सेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया.
- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री और आईसीएआर के अध्यक्ष: नरेंद्र सिंह तोमर.
- आर्मेनिया की राजधानी: येरेवान.
- आर्मेनिया की मुद्रा: अरमेनियाई दरम.
- आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ: श्री विश्ववीर आहूजा.
- Zomato के सीईओ: दीपिंदर गोयल; मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा.
- नाबार्ड का गठन: 12 जुलाई, 1982.
- आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री: हरदीप सिंह पुरी.
- अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: जेफ बेजोस
- पेटीएम की पैरेंट कंपनी: वन 97 कम्युनिकेशंस, मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश.
- सेबी के अध्यक्ष: अजय त्यागी; मुख्यालय: मुंबई.
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष: जी सतीश रेड्डी.
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: कमलनाथ; राज्यपाल: लाल जी टंडन.
- राजस्थान के मुख्यमंत्री: अशोक गहलोत; राज्यपाल: कलराज मिश्र.

- अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री: पेमा खांडू; राज्यपाल: बी.डी. मिश्रा.
- आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं।
- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री: त्रिवेंद्र सिंह रावत; राज्यपाल: बेबी रानी मौर्य.
- मिजोरम के मुख्यमंत्री: पु जोरमथांगा; राज्यपाल: पी. एस. श्रीधरन पिल्लई.
- एचआईवी / एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड.
- यूएनएड्स के कार्यकारी निदेशक: विनी बयानीमा.
- नेपाल के प्रधान मंत्री: केपी शर्मा ओली; राष्ट्रपति बिध्या देवी भंडारी.
- नेपाल की राजधानी: काठमांडू; मुद्रा: नेपाली रुपया.
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के महानिदेशक: श्री अभय बाकरे.
- ऊर्जा दक्षता मुख्यालय ब्यूरो: नई दिल्ली.
- आयुर्वेद, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक मंत्रालय (आयुष) के राज्य मंत्री: श्रीपाद येसो नाइक.
- RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

TEST SERIES

Bilingual

UPSC EPFO

Enforcement Officer

25 TOTAL TESTS